



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

(पत्रांक-44/2021 दिनांक 13.02.2021)

दिनांक- 13.02.2021 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

थाना कुबेरस्थान-

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये ज रहे अभियान के क्रम में थाना कुबेरस्थान क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 08.02.2021 को सिसवा नहर में एक लावारिश युवती का शव बरामद हुआ था। मृतका का शिनाख्त होने पर दिनांक 10.02.2021 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 27/2021 धारा 302/201 भादवि0 बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना के दौरान वादी पक्ष के बयान आदि के आधार पर घटना में प्रकाश में आये अभियुक्तगण क्रमशः 01. छांगुर कुशवाहा पुत्र लक्ष्मन कुशवाहा, 02. दुर्गावती देवी पत्नी छांगुर कुशवाहा, 03. एक बाल अपचारी साकिनान सुखपूरा टोला लवंगपूरा थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर को आज दिनांक 13.02.2021 को थाना कुबेरस्थान पुलिस टीम द्वारा मठिया चौराहा के पास से गिरफ्तार कर उनके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक अदद नायलान की रस्सी, कपड़ा व एक अदद डंडा बरामद कर उपरोक्त घटना का अनावरण किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि0 व 3(2)(5) SC/ST Act. की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उपरोक्त मृतक युवती का प्रेम प्रसंग बाल अपचारी से चल रहा था। उक्त मृतक युवती अपने घर से बाल अपचारी के घर गई थी। बालअपचारी व उसके परिजनो ने घर पर ही युवती की हत्या कर शव को छुपाने के नीयत से सिधुआ नहर में शव को फेंक दिया जो बहते हुए सिसवा रेगुलेटर पर लावारिश हालात मे बरामद हुआ था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. छांगुर कुशवाहा पुत्र लक्ष्मन कुशवाहा सा0 सुखपूरा टोला लवंगपूरा थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर।
02. दुर्गावती देवी पत्नी छांगुर कुशवाहा साकिनान सुखपूरा टोला लवंगपूरा थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर।
03. एक बाल अपचारी

गिरफ्तार करने वाली टीम-

01. SO श्री उमेश कुमार थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।
02. उ0नि0 श्री अरूण कुमार चौबे थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।
03. उ0नि0 श्री कन्हैया लाल यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।
04. हे0का0 योगेश यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।
05. का0 रामनिवास यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।
06. म0का0 जानकी वर्मा थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।
07. म0का0 अमिता वर्मा थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।

अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन में की गयी कार्यवाही-(कुल-04)

थाना कसया-

थाना कसया पुलिस टीम द्वारा 03 नफर अभियुक्तों 1.विनोद प्रसाद पुत्र वंशी प्रसाद साकिन कुरमौटा थाना कसया जनपद कुशीनगर 2.अरविन्द शर्मा पुत्र पारसनाथ शर्मा साकिन कुरमौटा मन्झरिया थाना कसया जनपद कुशीनगर 3. तुलसी पुत्र रामप्रताप साकिन पिपराइच थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 25 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-123/2021,124/2021,125/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना जटहाँ बाजार-

थाना जटहाँ बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त अवधेश साहनी पुत्र जग्गनात साहनी साकिन माघी कोठिलवा थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-20/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही-(01)

थाना सेवरही-

थाना सेवरही पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त नीरज सिंह पुत्र अवध किशोर सिंह सा0- पकडियार पूरब पट्टी थाना- सेवरही,जनपद गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद तमन्चा 12 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 39/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

चोरी करते समय पकड़े गये 04 चोर-

थाना रामकोला-

थाना रामकोला पुलिस द्वारा 04 नफर वांछित अभियुक्तों 1.छोटेलाल पुत्र रामप्रसाद निवासी विजयपुर टोला इंदरपुर थाना रामकोला जनपद कुशीनगर, 2. राधेश्याम पुत्र रामपत हरिजन, 3. मुन्नीलाल पुत्र बुद्धू 4. महेश पुत्र बिजली निवासीगण लाला छपरा टोला नागेश्वर थाना रामकोला जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का लोहे का बॉयलर क्रशट्रान बरामद कर मु0अ0सं0 50/ 2021 धारा 380/ 411 भादवि में गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 18 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1. 107/116 जा0फौ0 में की गयी कार्यवाही-मु0-16, व्यक्ति-63
2. आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही मु0-01, अभि0-01, बरामदगी- एक अदद तमचा मय एक अदद कारतूस।
3. आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-04, अभि0-04, बरामदगी- 25 ली0 अवैध कच्ची शराब।
4. चोरी करते समय पकड़े गये अभियुक्त (04)
5. घटना के अनावरण में हुई गिरफ्तारी अभि- (03)
6. जनपद में कुल गिरफ्तारी -(कुल-30)।

मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर